

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 443 ]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 22 अगस्त 2024 — श्रावण 31, शक 1946

विधि और विधायी कार्य विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 22 अगस्त 2024

आदेश

क्रमांक 2138/2043/21-ब/छ.ग./2024.— राज्य शासन, एतद्वारा, श्री नंद कुमार देवांगन, विशेष लोक अभियोजक (NDPS), धमतरी की सेवाएँ समाप्त करते हुये उनके स्थान पर स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी प्रदार्थ अधिनियम 1985 (NDPS), के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय, धमतरी (छ.ग.) में राज्य की ओर से पैरवी करने के लिए श्री चन्द्रशेखर राजपूत को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परीक्षा अवधि या 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक जो भी पहले हो, के लिए विशेष लोक अभियोजक (NDPS) नियुक्त करता है।

उन्हे शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी। उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. शासन, विधि विभाग मैनुअल में निर्धारित अनुसार होगी। नियुक्त विशेष लोक अभियोजक को शुल्क आदि का भुगतान विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 8639/21-ब/छ.ग./2022 दिनांक 26 जुलाई, 2022 के अनुरूप देय होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी.पी. सोहगौरा, अवर सचिव.